



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 741) पटना, बुधवार, 7 दिसम्बर 2011

---

सं0सं0 GPF-01-414/11-11004-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

7 दिसम्बर 2011

विषय:—राज्यकर्मियों के भविष्य निधि लेखा को अभियान के तौर पर अद्यतन करने के निमित्त संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों को सुदृढ़ करने के संबंध में ।

1. संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय के अतिरिक्त राज्य में कुल 27 जिला भविष्य निधि पदाधिकारी का कार्यालय है ।

2. सभी राज्यकर्मियों के भविष्य निधि लेखा तथा नई अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित कार्यों को 31.03.2012 तक अद्यतन कर लेने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु 168 अतिरिक्त लिपिकों तथा 60 अतिरिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों की आवश्यकता है (परिशिष्ट-1) ।

3. संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों में समेकित रूप से लिपिकों का स्वीकृत बल 302 है जिसके विरुद्ध कार्यरत बल 179 है । इस प्रकार लिपिकों के कुल 123 पद रिक्त हैं । उन रिक्त पदों में से 6 पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है । इस प्रकार लिपिकों के कुल 117 पद शुद्ध रूप से रिक्त हैं ।

4. संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मियों का स्वीकृत बल शून्य है ।

5. अतः (क) कुल 168 लिपिकों की आवश्यकता के विरुद्ध लिपिकों का  $117+6=123$  स्वीकृत पद रिक्त है । इस प्रकार 45 अतिरिक्त लिपिकों के स्थायी पदों की आवश्यकता है ।

(ख) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना में लिपिक संवर्ग का स्वीकृत बल 67 है, जिसकी आवश्यकता उक्त कार्यालय में नहीं है। अतः राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग में लिपिक संवर्ग के सभी स्वीकृत पदों को प्रत्यार्पित करते हुए संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के कार्यालयों हेतु 45 लिपिकों (वेतनमान पी०बी०-1+1900 में) के पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना में लिपिकों के स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत 24 लिपिकों को उपर अंकित कार्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय के कार्यालय में 8 लिपिक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी पटना के कार्यालय में 11 तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय में 5 लिपिक/भविष्य निधि कार्यालयों में 168 अतिरिक्त लिपिकों की आवश्यकता के विरुद्ध इस प्रकार 6 लिपिक अनुकम्पा पर नियुक्त होंगे तथा शेष 24 लिपिक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन कार्यालय से प्राप्त होंगे। शेष 138 लिपिकों के पदों के विरुद्ध (कुल 45 स्थायी लिपिकों का पद सृजित करने के पश्चात) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2804, दिनांक 29.03.2010 के आलोक में संविदा के आधार पर सेवा-निवृत्त लिपिकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया जाता है, जिस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

(ग) संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा राज्य के सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों में कुल 60 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की आवश्यकता है। राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन गुलजारबाग, पटना में चतुर्थवर्गीय कर्मियों का स्वीकृत बल (प्रेस मजदूर/केश कुली सहित)  $40+59=99$  है जिसकी आवश्यकता उक्त कार्यालय में नहीं है। अतः राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन गुलजारबाग, पटना के कार्यालय हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मियों के सभी स्वीकृत बल को (प्रेस मजदूर तथा केश कुली सहित) प्रत्यार्पित किया जायेगा तथा संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के कार्यालयों हेतु कुल चतुर्थवर्गीय कर्मियों का 60 पद (वेतनमान पी०बी०-1+1800 में) सृजित करते हुए राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना के कार्यालय में कार्यरत 47 चतुर्थवर्गीय कर्मियों को संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों में परिशिष्ट-2 के अनुसार समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी स्पष्ट करना है कि तत्काल मात्र इन 47 चतुर्थवर्गीय कर्मियों से ही कार्य लेने तथा शेष चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति (संविदा के आधार पर) नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश से,  
मिहिर कुमार सिंह,  
सचिव (व्यय)।

## परिशिष्ट-1

भविष्य निधि कार्यालयों हेतु अतिरिक्त लिपिकों/अनुसेवकों की आवश्यकता संबंधी विवरण					
क्र० सं०	जि.भ.नि. का. का नाम	कुल अंशदाताओं की संख्या	कुल पदस्थापित लिपिकों की संख्या	अतिरिक्त लिपिकों की आवश्यकता (1000 लेखा पर 1 लिपिक)	आदेशपालों की आवश्यकता
1	सीवान	10940	3	8	2
2	सीतामढ़ी	10036	6	5	2
3	नवादा	5593	5	1	2
4	बेगुसराय	8700	5	4	2
5	गोपालगंज	6644	4	3	2
6	मुजफ्फरपुर	15210	7	9	2
7	बेतिया	9530	6	4	2
8	सासाराम	14770	7	8	2
9	निदेशालय	28529	21	8	6
10	मधुबनी	12664	7	6	2
11	दरभंगा	10496	5	6	2
12	छपरा	8320	4	5	2
13	पूर्णियाँ	14401	7	8	2
14	मुंगेर	14925	6	9	2
15	सहरसा	13578	6	8	2
16	मोतिहारी	14146	6	9	2
17	औरंगाबाद	6446	5	2	2
18	समस्तीपुर	11170	6	6	2
19	नालन्दा	9768	5	5	2
20	भागलपुर	17881	8	10	2
21	कटिहार	6344	4	3	2
22	मधेपुरा	4264	5	0	2
23	पटना	26710	16	11	2
24	हाजीपुर	8050	5	4	2
25	जहानाबाद	5201	5	1	2
26	खगड़िया	5588	4	2	2
27	भोजपुर	16275	6	11	2
28	गया	16058	5	12	2
<b>कुल</b>		<b>332237</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>60</b>

## परिशिष्ट-2

भविष्य निधि कार्यालयों हेतु अनुसेवकों के समायोजन संबंधी विवरण

क्र०सं०	जि.भ.नि. का. का नाम	राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना में कार्यरत 47 चतुर्थवर्गीय कर्मियों को संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के कार्यालयों में समायोजित किये जाने की विवरणी
1	संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन	9
2	सीवान	1
3	सीतामढ़ी	1
4	नवादा	1
5	बेगुसराय	1
6	गोपालगंज	1
7	मुजफ्फरपुर	2
8	बेतिया	1
9	सासाराम	1
10	मधुबनी	1
11	दरभंगा	2
12	छपरा	2
13	पूर्णियाँ	2
14	मुंगेर	2
15	सहरसा	2
16	मोतिहारी	1
17	औरंगाबाद	1
18	समस्तीपुर	1
19	नालन्दा	1
20	भागलपुर	2
21	कटिहार	1
22	मधेपुरा	1
23	पटना	4
24	हाजीपुर	1
25	जहानाबाद	1
26	खगड़िया	1

27	भोजपुर	1
28	गया	2
कुल		47

आदेश से,  
मिहिर कुमार सिंह,  
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 741-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>